

तुरंत रिलीज के लिए

**सिटी उभरती प्रतिभाओं को कैंनेडा के सबसे बड़े संगीत फेस्टिवल्स में से
एक में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित कर रही है
*This is Brampton @ NXNE का हिस्सा बनें!***

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (6 मार्च, 2020) – ब्रैम्पटन में सभी होनहार संगीतकारों को आमंत्रित किया जा रहा है!

सिटी स्थानीय प्रतिभावान कलाकारों को 2020 के नॉर्थ बाय नॉर्थईस्ट (एन.एक्स.एन.ई.) (North by Northeast) (NXNE) फेस्टिवल के *This is Brampton* में प्रदर्शन करने के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है। एन.एक्स.एन.ई. क्लब लैंड सीरीज (NXNE Club Land Series) का हिस्सा, *This is Brampton @ NXNE*, द ड्रेक होटल (1150 क्वीन स्ट्रीट वेस्ट, टोरोंटो) (The Drake Hotel) (1150 Queen Street West, Toronto) में ब्रैम्पटन के प्रसिद्ध संगीत रंगमंच का आयोजित प्रदर्शन है, जो शुक्रवार, 19 जून, 2020 को होगा।

सफल आवेदकों को उनके प्रदर्शन के लिए भुगतान किया जाएगा, उन्हें प्रसिद्ध ड्रेक होटल में प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, एन.एक्स.एन.ई. की मार्केटिंग सामग्री में प्रमुख स्थान दिया जाएगा और सभी एन.एक्स.एन.ई. क्यूरेटर सीरीज + इंटरएक्टिव सेशनों (NXNE Curator Series + Interactive Sessions) के पास मिलेंगे।

सभी शैलियों के स्थानीय संगीतकार और बैंड्स, इस शानदार अवसर के बारे में और विवरणों के लिए www.brampton.ca/NXNE पर जा सकते हैं। कलाकारों को अपनी संगीत रिकॉर्डिंग्स और लाइव प्रदर्शनों के लिंक देने होंगे। ब्रैम्पटन के कलाकारों और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का एक पैनल, प्रस्तुतियों की समीक्षा करेगा और पांच तक सफल उम्मीदवारों का चयन करेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। चुने गए कलाकारों की सूची की घोषणा 20 अप्रैल को की जाएगी।

एन.एक्स.एन.ई. क्लब लैंड सीरीज में हिस्सा लेने का सिटी का यह तीसरा वर्ष है, जो कैंनेडा के उच्च संगीतकारों, इंडस्ट्री के प्रमुखों और एसोसिएशंस द्वारा आयोजित किया जाता है। 2019 में, *This is Brampton @ NXNE* ने ब्रैम्पटन के कलाकारों जेनेसोल (Zenesoul), केई म्यूजिक (Kae Music), रीको रीफ (Reeko Rieffe), नोइज़ फीट ट्रेमेन (Noyz Ft. Tremayne) और स्कॉटी IV (Scotty IV) के प्रदर्शन पेश किए थे। 2020 में, फेस्टिवल, टोरोंटो के सबसे बड़े समारोह स्थानों में से कुछेक में 40 से अधिक शो पेश करेगा।

This is Brampton @ NXNE, के बारे में और जानकारी के लिए, www.brampton.ca/NXNE पर जाएं।

हवाले

“ब्रैम्पटन में फलता-फूलता कला और संस्कृति रंगमंच है। सिटी को अपनी विविध प्रतिभा का समर्थन करने पर गर्व है। हम अवसरों का शहर हैं और *This is Brampton @ NXNE* असल में स्थानीय संगीतकारों के लिए, कैंनेडा के प्रीमियर संगीत फेस्टिवल्स में से एक में प्रदर्शन करने का शानदार अवसर है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन का संपन्न सांस्कृतिक क्षेत्र है और एन.एक्स.एन.ई. में लगातार तीसरे वर्ष हमारे होनहार स्थानीय कलाकारों को पेश करना बेहद खुशी की बात है। *This is Brampton* ने यह स्पष्ट करते हुए हमारे उभरते कलाकारों की प्रोफाइल को बेहतर बनाने में मदद की है कि ब्रैम्पटन ऐसे प्रतिभावान कलाकारों के लिए घर है, जो नाइटलाइफ में जोश भरते हैं और जिनकी वजह से कॉन्सर्ट्स की टिकटों की हाथों हाथ बिक्री होती है।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5 और वाइस-चेयर ऑफ इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर

-30-

कैंनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca